

Gulshan Polyols Limited

CIN: L24231UP2000PLC034918 Corporate Office: G-81, Preet Vihar,

Delhi-110092, India Phone: +91 11 49999200 Fax: +91 11 49999202

E-mail: gscldelhi@gulshanindia.com Website: www.gulshanindia.com

GPL\SEC\2020-21 January 21, 2021

BSE Limited
Corporate Service Department,
01st Floor, P. J. Towers,
Dalal Street, Mumbai
Maharashtra- 400 001

Scrip Code: 532457

The National Stock Exchange of India Ltd.

Exchange Plaza, Plot No. C/1, 'G' block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai Maharashtra-400 051

Scrip Code: GULPOLY

Subject: Newspaper Publications – Unaudited Financial Results for quarter and nine months ended as on December 31, 2020

Dear Sir/Maám,

Pursuant to Regulation 30 and Part A of Schedule III read with SEBI Circular No. CIR/CFD/CMD/4/2015 dated September 9, 2015 and Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, please find enclosed copies of the newspaper advertisement in respect of **Unaudited Financial Results for quarter and nine months ended as on December 31, 2020** as approved in the Board Meeting of the Company held on Wednesday, January 20, 2021. The advertisements were published in Financial Express (English) All India Edition and Jansatta (Hindi), today on January 21, 2021.

This will also be hosted on Company's website at www.gulshanindia.com under Investors' Section.

This is for your information and records.

Thanking you, Yours faithfully

For GULSHAN POLYOLS LIMITED

(Vijay Kumar Garg) Company Secretary M.No. ACS-37151

NOTICE

Pursuant to the Regulation 29 read with Regulation 47 and other relevant Regulations of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of Gokaldas Exports Limited is scheduled to be held on Friday, 29th January, 2021 at the Registered Office of the Company to consider and approve, inter alia the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended 31st December, 2020.

The said notice may be accessed on the Company's website at www.gokaldasexports. com and on the websites of Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

for GOKALDAS EXPORTS LIMITED Shrithee M.S. Company Secretary

Bangalore

Eris **ERIS LIFESCIENCES LIMITED**

Read. Office: 8" Floor. Commerce House - IV. Prahladnagar. 100 Ft. Road, Ahmedabad GJ 380015 Email: complianceofficer@erislifesciences.com; Website: www.eris.co.in Tel: +91 79 3045 1000 Fax: +91 79 3017 9404 CIN: L24232GJ2007PLC049867

NOTICE Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and

Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, NOTICE IS HEREBY given that a Meeting of the Board of Directors of Eris Lifesciences Limited ("the Company") is scheduled to be held on Thursday, 28th January, 2021 to, inter alia, consider and approve the standalone and consolidated unaudited financial results of the Company for the guarter and nine months ended 31" December, 2020. The said Notice and further details, if any may be accessed on the

Company's website at www.eris.co.in and may also be accessed on website of the stock exchanges where the shares of the Company are listed, i.e. BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com).

Quarter ended Nine Months ended Year ended

For Eris Lifesciences Limited

Milind Talegaonkar Company Secretary & Compliance Officer Mem. No. A26493



Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, 28th day of January, 2021 at the Corporate Office of the Company situated at 7-1-24/2/D, Greendale, Ameerpet, Hyderabad- 500016 to consider and approve, inter alia, un-audited standalone and consolidated financial results of the Company for the third guarter and nine months ended 31st December, 2021.

NOTICE

By Order of the Board Sridevi Dasari Place: Hyderabad Company Secretary & Compliance Officer Date: 20.01.2021

Subros Limited

Read, Office: LGF, World Trade Centre. Barakhamba Lane, New Delhi-110 001 Tel. No.: 011-23414946-49. Fax No. 011-23414945. CIN No. L74899DL1985PLC020134 E-mail: rakesh.arora@subros.com

Regulation 29 and other applicable regulations of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, 29th January, 2021, inter-alia, to consider and approve the unaudited financial results for the quarter ended 31st December, 2020. The details of the said meeting are also available on the website of the Company www.subros.com and on the website of the Stock Exchange(s) www.nseindia.com

For SUBROS LIMITED

New Delhi 20.01.2021 FJ. L. MORISON (INDIA) IIMITED CIN: L511000 B1934PL C088167 Read. Office: "Rasol Court"

Phone: 033 22480114 / 5, Email: investors@jlmorison.com,

20, Sir R. N. Mukherjee Road, Kolkata-700001

Website: www.jlmorison.com/corporate

Pursuant to Regulations 29(1)(a) and 47(1)(a of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday 29th January, 2021 interalia to consider and approve the Un-Audited Financial Results of the Company for the guarter and nine months ended 31st December, 2020. Notice can be accessed on the web-site of the

For J. L. Morison (India) Limited Sonal Naik

Company i.e. www.jlmorison.com/corporat

and the Stock Exchange i.e. www.bseindia.con

Company Secretary & Place: Mumbai **Compliance Officer** Date: 20th January, 2021

ROSELABS FINANCE LIMITED

CIN: L70100MH1995PLC318333

Regd. Office: 412, Floor- 4, 17G, Vardhaman Chamber, Cawasji Patel Road, Horniman Circle, Fort, Mumbai - 400 001 Tel.: 91.22.61334400 Fax: +91.22.23024550 Website: www.roselabsfinancelimited.in E-mail: roselabsfinance@lodhagroup.com

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS

PERIOD ENDED 31-DECEMBER-2020

				(₹ in Lakhs)
Sr. No.	Particulars	For the quarter ended	For the Nine months ended	For the quarter ended
	raitiourars	31-Dec-20	31-Dec-20	31-Dec-19
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)
1	Total Income from Operations	-	-	-
2	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	(3.22)	(8.46)	(2.60)
3	Net Profit/ (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	(3.22)	(283.87)	(2.60)
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	(3.22)	(283.87)	(2.60)
5	Total Comprehensive Income for the period [(Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after Tax)]	(3.22)	(283.87)	(2.60)
6	Equity share capital (Face Value of ₹ 10 each)	1000,00	1000.00	1000.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	(1,331.05)		
8	Earnings Per Share (Face Value of ₹ 10 each) (not annualised) Basic and Diluted	(0.03)	(2.84)	(0.03)

NOTE

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Result filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of BSE Limited i.e. www.bseindia.com and of the Company i.e. www.roselabsfinancelimited.in.

By Order dated 23-December-19, the Adjudicating Officer of SEBI has confirmed their Show-Cause Notice dated 15-December-09 imposing penalty of ₹, 253.73 Lakhs for alleged violation of certain provisions of SEBI Regulations during the financial year 2003-04 when the Company was under the control of earlier promoters. The Company has filed an appeal before the Securities Appellate Tribunal challenging the Order which has now been adjourned to 27-January-21. The Recovery officer of SEBI issued a notice of demand to recover the penalty of ₹. 253.73 lakhs along with the interest of ₹. 21.68 lakhs on 08-September-20. In light of the above, the Company has made provision of ₹. 275.41 lakhs during 30-September-20 and the same has been disclosed as Exceptional item in the above statement.

> For and on behalf of the Board For Roselabs Finance Limited Nilesh Rawat **Managing Director**

(DIN: 06705140)

GULSHAN POLYOLS LIMITED CIN: L24231UP2000PLC034918

Regd. Off.: 9th K.M., Jansath Road, Muzaffarnagar, Uttar Pradesh GULSHAN Corporate Off.: G-81, Preet Vihar, Delhi - 110092, Ph.: 011-49999200, Fax: 011-49999202

20th January, 2021

website: www.gulshanindia.com, cs@gulshanindia.com FINANCIAL HIGHLIGHTS Q3 FY2020-21

Date: 20th January, 2021

Place: Ahmedabad

Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter & Nine Months ended December 31, 2020 (Rs. in Lakhs)

		The state of the s		The state of the s			
SI. No.	Particulars	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.03.2020	
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	
1	Total income from Operations (Refer Note -2)	20,912.89	14,045.85	53,868.90	48,577.54	62,079.77	
2	Net Profit/ (Loss) for the period (Before Tax, Exceptional and / or Extraordinary Items)	2,741.04	615.19	5,963.78	2,406.07	2,742.22	
3	Net Profit/ (Loss) for the period Before Tax (After Exceptional and / or Extraordinary Items)	2,741.04	615.19	5,963.78	2,406.07	2,742.22	
4	Net Profit/ (Loss) for the period After Tax (After Exceptional and / or Extraordinary Items)	1,860.48	477.64	4,091.19	1,780.21	2,058.40	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (After Tax) and other Comprehensive Income (After Tax)]	1,860.48	477.64	4,091,19	1,780.21	2,058.40	
6	Paid-up equity share capital (Face Value of Re 1/- each)	469.17	469.17	469.17	469.17	469.17	
7	Reserves Excluding Revaluation Reserve						
8	Earnings Per Share for Continuing and Discontinued Operations (Before & After Extraordinary Items) (Face Value of Re 1/-each)						
	Basic	3.97	1.02	8.72	3.79	4.39	
	Diluted	3.97	1.02	8.72	3.79	4.39	

Notes:

Dated: January 20, 2021

Place: Delhi

- The above Unaudited financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2020 have been reviewed and recommended by the Audit committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on January 20, 2021. These Results have been subjected to Limited Review by the Statutory Auditors as required under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 and they have expressed an unmodified opinion on the aforesaid Results.
- 2 The above Financial Results has been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ('IND AS') prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read together with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (as amended) and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable. 3 Figures for the previous period have been regrouped/ rearranged wherever necessary to make them comparable with
- current figure. 4 This information contained is also available on Company's website www.gulshanindia.com and on the Stock Exchanges' website: www.nseindia.com and www.bseindia.com.

QUINT DIGITAL MEDIA LIMITED

(Formerly known as Gaurav Mercantiles Limited)

Registered Office: 403 Prabhat Kiran, 17, Rajendra Place, Delhi - 110008

Tel. No.: 011 45142374

Corporate Office: Carnousties's Building, Plot No. 1, 9th Floor, Sector 16A,

Film City, Noida - 201301 | Tel. No.: 0120 4751818

Website: www.quintdigitalmedia.com | Email: cs@gmlmumbai.com

CIN: L74110DL1985PLC373314

NOTICE

Members are hereby informed that pursuant to Section 110 and other applicable

provisions, if any, of the Companies Act, 2013, read with Rule 22 of the

Companies (Management and Administration) Rules, 2014, read with the General

Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, General Circular No. 17/2020 dated

April 13, 2020, General Circular No. 33/ 2020 dated September 28, 2020 and

General Circular No. 39/ 2020 dated December 31, 2020 issued by the Ministry

of Corporate Affairs, Government of India ("MCA") in view of COVID-19 ("MCA

Circulars"), the Company is seeking consent of its shareholders for the proposed

resolution as set-out hereinbelow, through postal ballot ("Postal Ballot") by way

The Company has completed the dispatch of the Notice for Postal Ballot along

with explanatory statement ("Postal Ballot Notice") on January 20, 2021 to all

the Members whose name appears on the Register of Members/ List of Beneficial

The Postal Ballot Notice has been sent through electronic mail to all the

shareholders whose email addresses are registered in the records of depository

participants. In terms of compliance with the requirements of the MCA Circulars.

physical copy of the Postal Ballot Notice and pre-paid business envelope will

not be sent to the members for this Postal Ballot and members are required to

Following matters are being put for approval under the said Postal Ballot Notice

Description of the Resolution

Ordinary Resolution to approve the re-designation of Ms. Ritu Kapur

as Managing Director and Chief Executive Officer of the Company

amendment to the Memorandum of Association of the Company

Ordinary Resolution to appoint Ms. Vandana Malik as the Director

Ordinary Resolution to approve the acquisition of used motor cars

Ordinary Resolution to approve issuance of bonus shares

The Company has engaged the services of Central Depository Services Limited

("CDSL") for the purpose of providing E-voting facility and members are requested

In light of the MCA Circulars, members who have not registered their email

address and in consequence could not receive the Postal Ballot Notice may get

their email registered by following the registration procedure provided under

the Postal Ballot Notice. Upon successful registration or updating of the email

address, the member would get soft copy of the notice and the procedure for

E-voting along with the User ID and the Password to enable E-voting for this

The E-voting period shall commence from January 21, 2021 at 9.00 a.m. and

shall end on February 19, 2021 at 5.00 p.m. During this period, the members of

the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form, as

on the Cut-Off Date, may cast their vote electronically. The E-voting module shall

The Board of Directors has appointed Mr. Devesh Kumar Vasisht, Practicing

Company Secretary and Partner of M/s Sanjay Grover & Associates, having CP

No. 13700, as the scrutinizer ("Scrutinizer") for conducting the Postal Ballot

process in a fair and transparent manner. The Scrutinizer will submit his report

after completion of the scrutiny and the results of the Postal Ballot will be posted on the Company's website www.quintdigitalmedia.com, besides communicating

to the stock exchanges where the equity shares of the Company are listed on or

Members whose name appears on the Register of Members/ List of Beneficial

Owner as on January 15, 2021 will be considered for the purpose of voting. A

person who is not a member as on January 15, 2021 should treat this notice for

Any Member who does not receive the Postal Ballot Notice and Postal Ballot

Form may send an email to tarun.belwal@thequint.com or subhashdhingreja@

skylinerta.com. The Postal Ballot Notice and the Postal Ballot Form can also be

The results of the Postal Ballot shall be declared by Chairman on or before

February 21, 2021 and shall be intimated to the stock exchanges on which the

shares of company are listed. Also, the results will be posted on the Company's

In case of any queries or issues regarding E-voting, shareholders may

downloaded from the Company's website www.guintdigitalmedia.com.

from Quintillion Media Private Limited

to cast their votes electronically only in terms of MCA Circulars.

Ordinary Resolution to increase the Authorized Share Capital and

communicate their assent or dissent through the E-voting system only.

of voting through electronic means ("E-voting").

Owners as on January 15, 2021 ("Cut-off Date").

sent to the members, through E-voting only:

be disabled by CDSL for voting thereafter.

before February 21, 2021.

information purpose only.

website www.quintdigitalmedia.com.

Item No.

On behalf of Board of Directors

(Dr. Chandra Kumar Jain) Chairman and Managing Director

MOTILAL OSWAL

Motilal Oswal Financial Services Limited CIN: L67190MH2005PLC153397

Regd. Office: Motilal Oswal Tower, Rahimtullah Sayani Road, Opposite Parel S.T. Depot, Prabhadevi, Mumbai - 400 025. Telephone No: +91 22 7193 4200 / 4263; Fax No: +91 22 5036 2365; Website: www.motilaloswalgroup.com; Email: shareholders@motilaloswal.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), a Meeting of the Board of Directors of Motilal Oswal Financial Services Limited ("the Company") will be held on Thursday, January 28, 2021, inter alia, to consider and approve following matters: Unaudited Financial Results (Standalone & Consolidated) of the

- Company for the guarter & nine months ended December 31, 2020.
- Declaration of Interim Dividend on the Equity Shares for the financial year 2020-21, if any, and fix record date for the said purpose.

The Notice of the Board Meeting is also available on the website of the Company i.e. www.motilaloswalgroup.com, BSE Limited i.e. www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited i.e. www.nseindia.com

For Motilal Oswal Financial Services Limited

Kailash Purohit Place: Mumbai Company Secretary & Compliance Officer Date: January 20, 2021 (ACS-28740)

QUINT DIGITAL MEDIA LIMITED (FORMERLY KNOWN AS GAURAV MERCANTILES LIMITED)

CIN: L74110DL1985PLC373314

Regd Office: 403 Prabhat Kiran, 17, Rajendra Place, Delhi - 110008 Tel. No.: 011 45142374

Corporate Office.: Carnousties's Building, Plot No. 1, 9th Floor, Sector 16A, Film City, Noida - 201301 | Tel. No.: 0120 4751818

Website: www.quintdigitalmedia.com | Email: cs@gmlmumbai.com

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDING DECEMBER 31, 2020 (₹ In '000)

Sr. No.	Particulars	Quarter ending December 31, 2020	Nine months ending December 31, 2020	Quarter ending December 31, 2019
1	Total Income from Operations	62,271.46	145,715.56	49,934.08
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	11,988.77	(16,416.15)	(63,877.86)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	11,988.77	(22,152.15)	(63,877.86)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	9,071.03	(23,065.43)	(61,414.53)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	9,043.73	(23,323.37)	(61,414.96)
6	Equity Share Capital	109,754.04	109,754.04	20,000
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year*			
8	Earnings Per Share 1) Basic : 2) Diluted :	1.18 0.96	(4.47) (4.47)	(15.35) (15.35)

nine months ending December 31, 2020, filed with the BSE Limited under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. b) Full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the BSE Limited (www.bseindia.com) and the Company (www.quintdigitalmedia.com). c) The above results are duly reviewed by the Audit Committee and have been approved by the Board of Directors in its meeting held on January 20, 2021. As on March 31, 2020. For and on behalf of Board of Directors

Place: Noida

Date: January 20, 2021

Parshotam Dass Agarwal Chairperson Din: 00063017

IK LAKSHMI 🎕 Regd. Office: Jaykaypuram-307019, District : Sirohi, (Rajasthan)

CIN: L74999RJ1938PLC019511, Tel: 91-11-68201860-869-894 Fax: 91-11-23739475, Email: jklc.investors@jkmail.com NOTICE

A meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, the 29th January 2021 inter alia to consider and approve Unaudited Financial Results of the Company for the third Quarter ended 31st December 2020.

B.K. Daga

Place: Mumbai

Date: 19-January-2021

The said Notice can be accessed on the website of the Company at www.jklakshmicement.com and may also be accessed on the Stock Exchanges websites at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

Place : New Delhi
Date : 20th January 2021
Website: www.iklakshmici For JK Lakshmi Cement Ltd. Website: www.iklakshmicement.com Sr. VP & Company Secretary



Outturn : 50 lbs per 80 Kg bog

Not KCB/23/85/2021/GHN(6) Date:18.01.2021 e-Tender Notice Kerala Cashew Board Limited invites e-tenders (e-Tender ID:- 2021_KCBL_407349

brough Government e-procurement portal for supply of 1000-3000 Metric Tonnes of quality Dried Cushew Nut of 2021 crop of Ghana origin with the following quality specifications on

Nut Count : 196 Numbers per Kg 1700 hours on 10th February 2021 Last date for submission and uploading e-tenders 1100 bours on 11th February 2021 Opening of e-tender

All details can be viewed, downloaded and applied through the e-procurement portal

www.etenders.kerala.cov.in CHAIRMAN & MANAGING DIRECTO

GIC HOUSING FINANCE LTD. YOUR ROAD TO A DREAM HOME

Reg. Off.: National Insurance Building, 6th Floor, 14, Jamshedji Tata Road, Churchgate, Mumbai - 400020. | Tel No.: 022-43041900, Email. : corporate@gichf.com, investors@gichf.com | Website : www.gichfindia.com

CIN No.: L65922MH1989PLC054583

NOTICE Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015, Notice is hereby given that the meeting of Board of Directors of our Company will be held on Friday, 12" February, 2021 to consider, approve and take on record the Un-audited Financial Results (with Limited Review) for the third Quarter/Nine

months ended 31" December, 2020. Board Meeting Notice is available on the website of the Company www.gichfindia.com and also on the website of Stock Exchanges i.e. www.nseindia.com and www.bseindia.com For GIC Housing Finance Ltd.

Place: Mumbai Date: 21.01.2021

Nutan Singh Group Executive & Company Secretary

TRANSMISSION CORPORATION OF TELANGANA LIMITED VIDYUT SOUDHA :: HYDERABAD - 500 082. Off: PABX:040-23396000 e-PROCUREMENT TENDER NOTICE

The Transmission Corporation of Telangana Limited invites sealed bids for

the following works. (1) Specification No.: e-13/CE/Construction/ TST-e-13/2020-21, Name of the work: Supply and Erection of 400kV 1000Sq.mm XLPE cable joints and GIS Terminations towards replacement of damaged 400kV 1000Sq.mm XLPE cable of 400kV Dindi feeder-2 & 400KV Satenapally feeder-1 at 6X150MW Srisailam Hydro Power Plant of TSGENCO. (2) Specification No.: TST-CONST-e-12/2020-21, Name of the work: Supply, erection, testing and commissioning of (i) 132/33KV Substation at Peechara and (ii) 132KV DC line (16KM) with HTLS Conductor on Galvanised Towers by making LILO of existing 132KV line from 220/132/33KV Warangal SS to 132/33KV Jangaon SS at proposed 132/33KV Peechara SS in Warangal Urban District. NOTE: - (i) Tender documents will be available online at date & time as mentioned above. (ii) Name & Address of the officer inviting tenders-Chief Engineer/Construction/TSTRANSCO/Vidyut Soudha/Hyderabad (iii) The contractors/firms are requested to upload the information in Zip formation

Phone No. 040-23396000, Extn: 3356/3351/3256/3269 CHIEF ENGINEER Fax No. 040-23336171. RO No. 25/20 CONSTRUCTION

preferably. (iv) Further details can be seen @ http://www.tender.telangana.gov.in.

S CHAND AND COMPANY LIMITED Registered Office: A-27, 2" Floor, Mohan Co-operative Industrial

S. CHAND Estate, New Delhi-110044, India; Email: investors@schandgroup.com; Website: www.schandgroup.com; Phone: +91 11 49731800; Fax: +91 11 49731801; CIN: L22219DL1970PLC005400

NOTICE OF POSTAL BALLOT Notice is hereby given that pursuant to Section 110 of The Companies Act, 2013 read with

The Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force), The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations. 2015 and in terms of the General Circular No.14/2020 dated April 08, 2020 read with General Circular No.17/2020 dated April 13, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars"), the Company is seeking approval of its members for the following matters by way of postal ballot, only through remote e-voting:

- (i) Appointment of M/s Walker Chandiok & Co LLP, Chartered Accountants (Firm Registration No: 001076N/N500013) as Statutory Auditors of the Company to fill the
- (ii) Transfer of Mylestone and Learnflix businesses of the Company to Convergia Digital Education Private Limited:

(iii) Amendment in S Chand-Employees Stock Option Plan 2018 In compliance with the MCA Circulars, the notice of postal ballot alongwith explanatory

statement will be sent to all the members by email who have registered their email addresses with the Company or depository participant/depository as on the cut-off date i.e. January 22, 2021. Please note that the physical copy of Postal Ballot Notice along with Postal Ballot Forms

and pre-paid business envelope will not be sent to the members in compliance with the above mentioned MCA Circulars. The notice of Postal Ballot will also be made available on the Company's website at www.schandgroup.com, on the website of the stock exchanges at www.bseindia.com and

www.nseindia.com. and on the website of the Registrar and Transfer Agent, Link Intime

India Private Limited at https://instavote.linkintime.co.in. The members who have not registered their email addresses are requested to register the same with their respective Depository Participant(s) or with Link Intime India Private Limited, Registrar and Transfer Agent of the Company or by sending the request to the

Company at investors@schandgroup.com. The members will be provided the facility to cast their vote through remote e-voting and they are required to communicate their assent or dissent on the proposed resolutions through the remote e-voting system only.

Postal Ballot. The notice of Postal Ballot will be sent to the members on their registered e-mail addresses in due course. By order of the Board of Directors

Place: New Delhi

Date: January 20, 2021

The instructions to vote through remote e-voting system will be provided in the notice of

Jagdeep Singh Company Secretary Membership No. A15028

Software Limited

COMPUCOM COMPUCOM SOFTWARE LIMITED IT: 14-15 EPIP, Sitapura, Jaipur-302022 (Rajasthan) (India) Tel. 0141-2770131, Fax: 0141-2770335, Email: fin@compucom.co.in

Website: www.compucom.co.in, CIN: L72200RJ1995PLC009798 NOTICE Notice is hereby given that pursuant to Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of Board of Directors of the Company will be held on Friday, January 29, 2021 at the registered office of the Company at IT- 14-15, EPIP, Sitapura, Jaipur - 302022 at 04.00 P.M., inter alia to approve the Un-audited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for

at www.compucom.co.in and on Stock Exchanges' website at www.nseindia.com, www.cse-india.com and www.bseindia.com. For Compucom Software Limited Sd/- (Swati Jain) Company Secretary & Compliance Officer Date: 20.01.2021

the Quarter and Nine Months ended on December 31, 2020 and take on record Limited

Review Report thereon. This Intimation is also available on Company's website

EXTENSION OF AUCTION OF PSL LIMITED- IN LIQUIDATION EARLIER SCHEDULED ON 28.01.2021, NOW EXTENDED TO 16.02.2021 This is to inform that the E-Auction of PSL Limited to be conducted on 28.01.2021 vide Sale Notice published on 05.01.2021 and 06.01.2021 is being extended as follows:

Time of E-Auction-3.00 pm to 6.00 pm

Revised date of E-Auction-16.02.2021

The last date for acceptance of EMD shall be till 3 pm on 15.02.2021. All the prospective bidders are requested to take note of this and contact in the following manner for revised documents: Email: psl.limited@aaainsolvency.com, assetsale1@aaainsolvency.com, nitinjain@aaainsolvency.com

Mobile:8800865284 (Puneet Sachdeva)/011-46664628 (Ms. Harshita)

Liquidator in the matter of PSL Limited IBBI (IBBI/IPA-001/IP-P-01562/2019-2020/12462

Nitin Jair

Address: E-10A, Kailash Colony, Greater Kailash – I, New Delhi -110048 Date: 20-01-2021 Email: nitinjain@aaainsolvency.com, psl.limited@aaainsolvency.com

Place: New Delhi assetsale1@aaainsolvency.ir Contact Person: Puneet Sachdeva/Mr. Nitin Jain +91-8800865284 / 011-466646128



NOTICE OF POSTAL BALLOT/E VOTING Members are hereby informed that pursuant to Section 110 and other applicable provisions, any, of the Companies Act, 2013 (the "Act") read with Rule 22 of the Companies (Managemen

and Administration) Rules, 2014, (the "Rules"), Regulation 44 of the Securities & Exchange Board of India (Listing Obligations & Disclosure Requirement) Regulations, 2015 (the "SEBI Listing Regulations") read with relevant Circulars issued by MCA in view of COVID-19 pandemic, the Company has completed the despatch of Postal Ballot Notice dated January 9, 2021 on January 20,2021 only through electronic mode to all those members of the Company whose e mail addresses are registered with the Company or with the Depositories as on January 15, 2021 ("Cut off date"). The requirement for sending physical copy of the Postal Ballot Notice and Postal Ballot Form has been dispensed with the MCA circulars. Members are hereby informed that

1. The Special Business pertaining to offer or invite to subscribe, issue and allot, 60,00,000 (Sixty Lakh) 11.25% Non Convertible Redeemable Cumulative Preference Shares (hereinafter referred to as "NCRCPS") of face value of Rs. 10/- each at par, for an aggregate value not exceeding Rs. 6,00,00,000/- (Rupees Six Crores only) to Mr. S Rajkumar (Managing Director and Promoter) for cash in one or more tranches as given in Postal Ballot Notice is transacted through Postal Ballot via remote e vosting platform provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL). 2. The e voting commences on Thursday, January 21, 2021 at 9.00 a.m (IST).

3. The e voting period ends on Friday, February 19, 2021 at 5.00 p.m (IST) and thereafter, the remote e-voting shall be blocked and voting shall not be allowed beyond the said time. . Only those members whose names are recorded in the Register of members of the Company

or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on cut off date, ie January 15, 2021 are entitled to cast their votes 5. The board has appointed Adv. K Vijayaragavan as Scrutinizer for the Postal Ballot. Members who have not received Postal Ballot Notice may write to secretary@sreekailas.com

and obtain the same. . If you have any queries or issues regarding e-Voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Nitin Kunder

(022-23058738) or Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542) All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Manager, (CDSL,), A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43. Members who have not registered their e-mail address may temporarily get their e-mail address registered with the Company's RTA, by clicking the link: https://bigshareonline.com and following

the registration process as guided thereafter. Post successful registration of the e-mail, the Members would get soft copy of the Notice and the procedure for e-voting along with the User ID and Password to enable e-voting for this Postal Ballot. In case of any queries, Members may write to the RTA at https://bigshareonline.com. The Postal Ballot Notice is available on the Company website, www.sreekailas.com, the BSE website www.bseindia.com and on the website of CDSL at www.evotingindia.com. Result of Postal

Ballot shall be declared on or before Sunday, February 21, 2021 and shall be communicated to BSE Limited and shall be also placed on the Company website at www.sreekailas.com. For Cella Space Limited Place: Cochin - 16

Date: 20/01/2021

Jiju George Company Secretary & Compliance Officer

UDAIPUR CEMENT WORKS LIMITED Regd. Office: Shripati Nagar, CFA, P.O. Dabok, Udaipur-313 022 (Rajasthan) Admin Office: Nehru House, 4, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 Website: www.udaipurcement.com, Email Id: ucwl.investors@jkmail.com,

Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine months ended 31st December, 2020

Tele/Fax: 0294-2655076/77, CIN: L26943RJ1993PLC007267

SI.	5	End	Ended	
No.	Particulars :	31.12.2020 (Unaudited)	31.12.2019 (Unaudited)	31.12.2020 (Unaudited)
1	Total Income from Operations	183.15	158.65	516.21
2	Profit before Interest, Depreciation & Taxes (EBITDA)	37.27	25,59	105.01
3	Net Profit / (Loss) for the Period (before Tax and Exceptional Items)	15.55	0.97	37.37
4	Net Profit / (Loss) for the Period before Tax (after Exceptional Items)	15.55	0.97	37.37
5	Net Profit I (Loss) for the Period after Tax (after Exceptional Items)	15.55	0.97	32.90
6	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive income (after tax)]	15.51	0.92	32.79
7	Equity Share Capital	124.56	124.56	124.56
8	Other Equity excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet as of 31st March, 2020			58.99
9	Earnings Per Share (of ₹ 4/- each)			
	Basic / Diluted	0.50	0.03	1.06

Place: New Delhi

(A subsidiary of JK Lakshmi Cement Ltd.)

Notes:

(1) The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 20th January 2021.

(2) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the website of Stock Exchange at www.bseindia.com and also on Company's website at www.udaipurcement.com.

> For Udaipur Cement Works Limited (Shrivats Singhania)

Date: 20th January 2021 Executive Director (Business Development) For Kind Attention of Shareholders: As a part of UCWL WORKS LIMITED

Green Inititative of the Government, all the Shareholders are requested to get their e-mail address registered with the Company for receiving Annual Reports, etc. on e-mail.

financialexp.epapr.in

Place: Noida Tarun Belwal Company Secretary & Compliance Officer Date: 20th January, 2021

refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@

cdslindia.com or may contact Mr. Subhash Dhingreja, Skyline Financial Services Pvt. Ltd. at A-505, Dattani Plaza, Andheri Kurla Road, Safeed Pool, Andheri -East, Mumbai, Maharashtra - 400072 at his email address: subhashdhingreja@ skylinerta.com or Contact No. 022 28511022 / 49721245. For Quint Digital Media Limited

Website: www.subros.com Notice is hereby given pursuant to

and www.bseindia.com

Rakesh Arora Company Secretary

KAYCEE INDUSTRIES LIMITED

CIN: L70102MH1942PLC006482

Read. off: Old Kamani Chambers, 32-Ramjibhai Kamani Marg, Ballard Estate, Mumbai-400001 Tel. No.: 022 2261 3521 Fax No. 022 2261 3521 Website: www.kayceeindustries.com

NOTICE is hereby given that pursuant to Regulation 47 read with Regulation 33/ Regulation 29 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 the Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Thursday, January 28, 2021 through Video Conferencing (VC), inter alia, to consider and approve the un-audited financial results of the company for the quarter and nine month ended December 31, 2020.

This information is also available on Company' website www.kavceeindustries.com and also on BSE website www.bseindia.com.

For Kaycee Industries Limited

Harshal Patil Place:- Mumbai Company Secretary Date: - January 20, 2021

For Gulshan Polyols Limited

FORM A PUBLIC ANNOUNCEMENT (Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016) FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF ALLBEST OFFSHORE MARINE (INDIA) PRIVATE LIMITED Name of corporate debtor Allbest Offshore Marine (India) Private limited Date of incorporation of corporate debtor 22.11.2010 Authority under which corporate debtor is RoC-Delhi incorporated/registered Corporate Identity No. / Limited Liability U74999DL2010PTC210645 Identification No. of corporate debtor

Address of the registered office and Registered office:105, First Floor, South Ex principal office (if any) of corporate debtor Plaza Part-I 389, Majid Moth, South Exten. Part-II, New Delhi - 110049 Insolvency commencement date in respect 12.01.2021 (Order known to IRP on 12.01.2021) of corporate debtor Estimated date of closure of insolvency 12.07.2021 (180 days from the Insolvency

resolution process Commencement Date) Name and registration number of the NAME-PREETIJAISWAL insolvency professional acting as interim Regn. No. IBBI/IPA-001/IP-P00523/2017

resolution professional 2018/10948 Address and e-mail of the interim resolution ADDRESS- A-3/312 Milan Vihar Apartments 72. professional, as registered with the Board IP Extension, New Delhi, National Capital Territory of Delhi, 110092 Regd. E-mail - capreetigoyal@gmail.com 10. Address and e-mail to be used for ADDRESS - 405, Arunachal Building, correspondence with the interim resolution Barakhamba Road, New Delhi - 110001.

Email cirpallbest@gmail.com professional 11. Last date for submission of claims 31.01.2021 Classes of creditors, if any, under clause (b). of sub-section (6A) of section 21,N.A.... ascertained by the interim resolution Names of Insolvency Professionals

identified to act as Authorised Representative of creditors in a class (Three names for each class) 14. (a) Relevant Forms and (a) http://www.ibbi.gov.in/downloadform.html (b) Details of authorized representatives (b) Details: are available at:

Private limited on 12.01.2021 that was made available to IRP on 18.01.2021. The creditors of Allbest Offshore Marine (India) Private limited are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 31.01.2021 to the Interim Resolution Professional at the address mentioned against Entry No. 10 above. The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other

creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means. Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal (New Delhi) has ordered the

commencement of Corporate Insolvency Resolution Process of Allbest Offshore Marine (India)

Date: 20th January, 2021 Place: New Delhi

PREETI JAISWAL (Interim Resolution Professional) IBBI/IPA-001/IP-P00523/2017-2018/10948



S CHAND AND COMPANY LIMITED

Registered Office: A-27, 2nd Floor, Mohan Co-operative Industrial S. CHAND Estate, New Delhi-110044, India; Email: investors@schandgroup.com; Publishing Website: www.schandgroup.com; Phone: +91 11 49731800; Fax: +91 11 49731801; CIN: L22219DL1970PLC005400

NOTICE OF POSTAL BALLOT

Notice is hereby given that pursuant to Section 110 of The Companies Act, 2013 read with The Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force). The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in terms of the General Circular No.14/2020 dated April 08, 2020 read with General Circular No.17/2020 dated April 13, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars"), the Company is seeking approval of its members for the following matters by way of postal ballot, only through remote e-voting:

(i) Appointment of M/s Walker Chandiok & Co LLP, Chartered Accountants (Firm Registration No: 001076N/N500013) as Statutory Auditors of the Company to fill the

(ii) Transfer of Mylestone and Learnflix businesses of the Company to Convergia Digital Education Private Limited:

(iii) Amendment in S Chand-Employees Stock Option Plan 2018

In compliance with the MCA Circulars, the notice of postal ballot alongwith explanatory statement will be sent to all the members by email who have registered their email addresses with the Company or depository participant/depository as on the cut-off date Please note that the physical copy of Postal Ballot Notice along with Postal Ballot Forms

and pre-paid business envelope will not be sent to the members in compliance with the above mentioned MCA Circulars The notice of Postal Ballot will also be made available on the Company's website at

www.schandgroup.com, on the website of the stock exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com. and on the website of the Registrar and Transfer Agent, Link Intime India Private Limited at https://instavote.linkintime.co.in The members who have not registered their email addresses are requested to register the

same with their respective Depository Participant(s) or with Link Intime India Private Limited, Registrar and Transfer Agent of the Company or by sending the request to the Company at investors@schandgroup.com.

The members will be provided the facility to cast their vote through remote e-voting and they are required to communicate their assent or dissent on the proposed resolutions through the remote e-voting system only.

The instructions to vote through remote e-voting system will be provided in the notice of Postal Ballot. The notice of Postal Ballot will be sent to the members on their registered e-mail addresses in due course.

By order of the Board of Directors

Jagdeep Singh Place: New Delhi Company Secretary Date: January 20, 2021 Membership No. A15028

खोया एवं पाया एतदद्वारा सचित किया जाता है कि लोकॉन सॉल्यशन्स प्राईवेट लिमिटेड (कम्पनी) के नीचे वर्णित शेयर प्रमाणपत्रों के गम होने/ खो जाने की सचना मिली है तथा उक्त शेयरों के धारकों ने डुप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कम्पनी में आवेदन किया है। यदि किसी व्यक्ति का उक्त शेयरों के प्रति किसी प्रकार का दावा हो, वे इस सूचना की तिथि से 7 दिनों के भीतर उसके पंजीकृत कार्यालय में कम्पनी के पास उसे दाखिल करें अन्यथा कम्पनी आगे कोई भी सूचना दिये बिना उपरोक्त आवेदकों को डप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी

यरधारक का नाम। शेयरों की सं.। शेयर का प्रकार

लोकॉन सॉल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड के लिये निदेशक

सचना

केन्द्र सरकार उत्तरी क्षेत्र, के समक्ष कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कन्यनी (निगबन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (क) के विषय में

अरविन्द इम्पेक्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीवत कार्यालयः जे-५० अपर गाउन्ड फलैट नंबर 2, ईस्ट विनोद नगर, नई दिल्ली ईस्ट दिल्ली-110091 में विधान है

निम्नलिखित के विषय में

तदद्वारा सर्व साधारण को सचना दी जाती है कि कम्पनी द्वारा इसका पंजीवत कार्वालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए कम्पनी को सक्षम बनाने हेत् 02 नवम्बर, 2020 व सम्पन्न इसकी असाधारण सामान्य बैंठक में पारित विशेष प्रस्ताव व निबंधनों में कम्पनी के संस्था जापन में संशोधन की पृष्टि हेत् कम्पनी अधिनिवम, 2013 की धारा 13 के अधीन एक आवेदन, केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तृत किया जाना प्रस्तावित है। कोई भी व्यक्ति जिसका हित कम्पनी के पंजीकत कार्यालय व

प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है. अपने हित स्वरूप तथा विरोध के आधार के उल्लेखकारी शपधपत्र द्वार समर्थित अपनी आपत्तियां निवेशक शिकायत प्रपत्र भरकर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) प सपर्द कर सकता है अथवा क्षेत्रीय निदेशक को बी-2 विंग, द्विती। तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 व पते पर इस सवना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिन के शैतर सपर्द करवा सकता है अधवा पंजीकत डाक से भेज सकता । जिसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को इसके उपरिवर्णित पते प स्थित पंजीकृत कार्वालय मेजी जानी चाहिए।

अरविन्द इम्पेक्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (अरविन्द कुमार सिंह) स्थान : नई दिल्ली बीआईएन : 02291048

प्रपत्र सं. आईएनसी-26 [कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30

के अनुसार] कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दसरे राज्य में स्थानान्तरित करने के लिए समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाला विजापन क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र नई दिल्ली के समक्ष

2021 की कम्पनी याचिका सं.

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) तथा कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(6)(क) के मामले में

डब्ल्यएसपी कंसल्टैन्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मामले में. जिसका पंजीकत कार्यालय कॉर्पोरेट बिजिनेस सेंटर, एससीओ 80-81, तीसरी मंजिल, सेक्टर-17सी, चंडीगढ़-160017 भारत पर याचिकाकत

एतद्वारा जनसामान्य को सुचित किया जाता है वि कम्पनी अपने पंजीकृत कार्यालय को ''रा.रा.क्षे चंडीगढ'' से ''उत्तर प्रदेश राज्य'' में परिवर्तित करने के लिए 29 दिसम्बर, 2020 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के सन्दर्भ कम्पनी की संस्था नियमावली के परिवर्तन क सुनिश्चितीकरण चाहने के लिए कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के तहत केन्द्र सरकार के पार आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानान्तरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक, उत्तर्र क्षेत्र को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकते हैं या सुपूर्द कर सकते हैं और इसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा

पंजीकत कार्यालयः कॉर्पोरेट बिजिनेस सेंटर एससीओ 80-81, तीसरी मंजिल, सेक्टर-17सी, चंडीगढ-160017 भारत कृते डब्ल्यूएसपी कंसल्टैन्ट्स इंडिया प्राइवेट

लिमिटेड

नामः राजेश चोपड़ा पूर्णकालिक निदेशक डीआईएनः 05225934

पताः बी-1/141, तीसरी मंजिल जनकपुरी बी-1. पश्चिमी दिल्ली-110058 तिथि: 21.01.2021 स्थानः चंडीगढ

ু 🌊 केंद्रीय विद्यालय वायु सेना स्थल, अर्जनगढ़, नई दिल्ली –110047 निविदा सूचना

केंद्रीय विद्यालय वायु सेना स्थल, अर्जनगढ़, में खेल कूद के मैदान को समतल करवाने हेतु उपकरण / सामग्री की आवश्यकता है, अतः इच्छुक ठेकेंदार अपनी उपकरण / सामग्री की दरें निम्नलिखित प्रारूप में भरें।

क्रम संख्या	उपकरण / सामग्री का नाम	<u>दर</u>	इच्छुक ठेकेदार की दर		
01	ट्रेक्टर ट्राली	प्रति घंटा			
02	जे० सी० बी०	प्रति घंटा			
03	पोप्लैंड	प्रति घंटा			
04	समतल करने हेतु मिट्टी	आकार के अनुसार ट्रेक्टर ट्राली			
05	समतल करने हेतु मिट्टी	आकार के अनुसार डम्पर			

उपरोक्त प्रारूप इच्छुक ठेकदार 31.01.2021 तक 5000रु० की इ एम डी चेक या डीडी द्वारा उपरोक्त पते पर भेजें

प्राचार्य

21

स्थान : नोएडा

तिथि: 20 जनवरी, 2021



दिल्ली कृषि विपणन परिषद् (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार)

9 इंस्टीट्यूशनल एरिया, पंखा रोड, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 फोन: 28522085, 28525232 फैक्स: 011-28522085, ई-मेल: ambdl@nic.in, वेबसाइट: www.delagrimarket.nic.in

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

उपा	उपाध्यक्ष डी ए एम बी की ओर से ई-निविदा के माध्यम से निम्नलिखित मद दर ई-निविदा आमेत्रित की जाती है:-									
क्र.	कार्य का नाम	अनुमानित	धरोहर राशि	पूरा करने	ई-प्रोक्योरमेंट	निविदा				
सं.		लागत		की	समाधान के माध्यम	· ·				
				अवधि	से निविदाओं की	संख्या/				
					प्राप्ति की अंतिम	एन.आई.टी				
					तिथि एवं समय					
1	मछली मंडी गाजीपुर दिल्ली में 350 किलो लीटर प्रति	Rs.	Rs.	चार महीने	03.02.2021	2021_				
	दिन की क्षमता वाले एफ्लुएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट (ETP)	293.30	5,86,600/-	+ 5 साल		डी.ए.एम.बी_				
	एकमुश्त आधार पर उसकी डिजाइनिंग, विस्तृत	लाख		संचालन		198764_1				
	इंजीनियरिंग, आपर्ति, निर्माण तथा 5 वर्ष (1 वर्ष की			और		26/				
	वारंटी अवधि + 4 साल लिए के संचालन और			रखरखाव		डी.ए.एम.बी./				
	रखरखाव) मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल पाइपलाइन कार्य					इंजी/ पी ई-				
	ऑनलाइन मॉनिटरिंग के साथ, संचालन तथा डी पी सी					II/ 2020-				

1. तकनीकी बोली ऑनलाइन खोलना– 03.02.2021, 15.00 बजे, स्थानः 9 इंस्टीट्यूशनल एरिया, पंखा रोड, जनकपुरी, नई

2. नियम व शर्ते एवं अन्य विवरण वेबसाइटः– https://govtprocurement.delhi.gov.in पर देखे जा सकते हैं। (ID_ 20_21_डी.ए.एम.बी_198764-1) हस्ता./-परियोजना अभियंता II

सार्वजनिक उद्घोषणा (भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2017 का विनियम 14} हेम एम्ब्रॉयडरी प्राईवेट लिमिटेड के स्टेकहोल्डरों के ध्यानार्थ

कॉर्पोरेट व्यक्ति का नाम मैसर्स हेम एम्ब्रॉयडरी प्राईवेट लिमिटेड कॉर्पोरेट व्यक्ति के गठन की तिथि 23.03.1999 प्राधिकरण जिसके अधीन कॉर्पोरेट व्यक्ति कंपनी पंजीयक, रा.श. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा, नई गठित / पंजीकत है दिल्ली कारपोरेट कार्य मंत्रायल कॉर्पोरेट व्यक्ति की कॉर्पोरेट पहचान U74899DL1995PTC066749 संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या कॉपॉरेट व्यक्ति के पंजीकत कार्यालय एवं चप्पल फार्म नंबर 1, फर्न हिल, डीएलएफ, छतरपुर फार्म प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता महरौली, नई दिल्ली -110074 कॉर्पोरेट व्यक्ति का परिसमापन प्रारंभ तिथि 19.01.2021 नाम : मनोज कुमार पुरबे परिसमापक का नाम, पता, ई-मेल पता, टेलीफोन पता : ऑफिस ने 03, बी-32, माधव कॉम्प्लेक्स, सुनाप चौक, नम्बर एवं पंजीकरण संख्या लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092 इन ई-मेल पता : purbey31@gmail.com सम्पर्क नं. : 9350218303 पंजीकरण संख्या : BBNPA-002IP-N00374/2017-18/11117 दावे जमा करने की अंतिम तिथि 18.02.2021

तदद्वारा सुचित किया जाता है कि मैसर्स हेम एम्ब्रॉयडरी प्राईवेट लिमिटेड ने 19.01.2021को स्वैच्छिक ारिसमापन प्रारंभ किया है।

मैंसर्स हेम एम्ब्रॉयडरी प्राईवेट लिमिटेड के स्टेकहोल्डरों को एतदद्वारा मद 7 में वर्णित पते पर परिसमापक के गस 18.02.2021 को या उससे पूर्व अपने दावों के प्रमाण जमा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। वित्तीय लेनदारों को केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से अपना दावा जमा करना होगा। अन्य सभी स्टेकडोल्डर व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से अपने दावों के प्रमाण जमा कर सकते

दावों के झुठे या मिथ्या प्रमाण जमा करने पर दण्डित किया जायेगा।

हस्ता./-तिथि : 20.01.2021 मनोज कुमार पुरबे ख्यानः दिल्ली (खैक्छिक परिसमापक)



U.P. State Industrial Development Authority UPSIDC Complex, A-1/4, Lakhanpur, Kanpur-208024

Notice for Public Objection / Suggestion on Partial amendment in Layout Plan of Industrial Area Baheri, District Bareilly by which Industrial Plot No. A-7 (Area-16800.00 Sqm.) & A-8 (Area-16800.00 Sqm.) is being created by amalgamation of existing Industrial Plots No. B-13 to B-15, C-14 to C-16, B-7 to B-9, C-8 & C-10 and Plot No.A-4 are un-reserved of existing Industrial Area.

1 (a) The Amended Part Layout Plan of Industrial Area Baheri of the Uttar Pradesh State Industrial Development Authority (UPSIDA) situated in District Bareilly has been prepared.

(b) A copy thereof will be available for inspection at the Regional Manager Office of the Uttar Pradesh State Industrial Development Authority, 1116, Janakpuri, Opposite Ramjanki Mandir, Near Dr. Mahesh Gupta, District Bareilly between 10:00 am to 5:00 pm on all working days till the date mentioned in Para 3 hereafter as well as website www.upsidc.com

2. Objections and Suggestions are hereby invited with respect of the Draft Amended Layout Plan.

3. Objections and suggestions are shall be sent in writing to the office of Regional Manager UPSIDA at 1116, Janakpuri, Opposite Ramjanki Mandir, Near Dr. Mahesh Gupta, District Bareilly within 15 days from the date of publication of this notice mentioning subject as "Regarding Public Objection/Suggestion on Draft Amended Layout Plan for Industral Area Baheri". Any person making the objections or suggestions should also give his/her full name & address, email id and contact number.

(Regional Manager) U.P. State Industrial Development Authority

क्विंट डिजिटल मीडिया लिमिटेड (पूर्व की गौरव मर्केंटाइल लिमिटेड)

पंजीकृत कार्यालय : 403 प्रभात किरन, 17, राजेन्द्र प्लेस, दिल्ली-110008 दुरभाष : 011 4142374

कॉर्पोरेट कार्यालय : कारनउस्टिज बिल्डिंग, प्लॉट नं. 1, 9वां तल, सेक्टर 16 ए. फिल्म सिटी, नोएडा- 201301 | टेली.नं.: 0120-4751818,

वेबसाईटः www.quintdigitalmedia.com | ई-मेल : cs@gmlmumbai.com CIN: L74110DL1985PLC373314

रतदुद्वारा सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कोविड–19 को देखते हुए कार्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार (''एमसीए'') द्वारा जारी साधारण सर्क्युलर नं. 14/2020 तिथि 8 अप्रैल, 2020, साधारण सर्क्युलर नं. 17/2020 तिथि 13 अप्रैल, 2020 तथा साधारण सर्क्युलर नं. 33/2020 तिथि 28 सितम्बर, 2020 (''एमसीए सर्क्यूलर्स'') के साथ पठित कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 22 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 तथा लागू होने वाले अन्य प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुपालन में यह कम्पनी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से (''ई-वोटिंग'') के माध्यम से मतदान द्वारा पोस्टल बैलॅट (''पोस्टल बैलॅट'') के द्वारा नीचे वर्णित प्रस्तावित प्रस्ताव के लिये अपने शेयरधारकों की सहमति प्राप्त कर रही है। कम्पनी ने ऐसे सभी सदस्यों जिनके नाम 15 जनवरी, 2021 ("कट-ऑफ तिथि") को सदस्ये के रजिस्टर/लाभभोगी स्वामियों की सुची में शामिल हैं, को 20 जनवरी, 2021 को व्याख्यात्मक विवरण (''पोस्टल बैलॅट सुचना'') के साथ पोस्टल बैलॅट सुचना का प्रेषण पुरा कर लिया है पोस्टल बैलॅट सुचना इलेक्ट्रॉनिक मेल से ऐसे सभी सदस्यों को भेजी गई है जिनके ईमेल पते डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के अभिलेखों में दर्ज हैं। एमसीए सर्क्युलर्स की अपेक्षाओं के अनुपाल में पोस्टल बैलॅट सूचना की भौतिक प्रति तथा पूर्व-प्रदत्त व्यावसायिक लिफाफे की भौतिक प्रति इस पोस्टल बैलॅट के लिये सदस्यों को नहीं भेजी जाएगी तथा सदस्यों को केवल ई-वोटिंग प्रणार्ल से ही अपनी सहमति या असहमति को सचित करना होगा।

सदस्यों को भेजी गई उक्त पोस्टल बैलॅट सूचना के अंतर्गत केवल ई-वोटिंग द्वारा स्वीकृति के लिये निम्न विषय रखे गये हैं:

मद सं.	प्रस्ताव का विवरण
1	कम्पनी के प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में सुश्री रितू कपूर के पुनः पद धारण के अनुमोदन का साधारण प्रस्ताव
2	कम्पनी के संगम ज्ञापन के संशोधन तथा अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि करने के लिए साधारण प्रस्ताव
3	बोनस शेयरों के निर्गमन के अनुमोदन हेतु साधारण प्रस्ताव
4	निदेशक के रूप में सुश्री वन्दना मलिक की नियुक्ति के लिए साधारण प्रस्ताव

क्विंटिलियन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड से प्रयुक्त मोटर कारों के अधिग्रहण के अनुमोदन के लिए साधारण ई-वोटिंग सविधा उपलब्ध कराने के लिये कम्पनी ने सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस लिमिटेड

(''सीडीएसएल'') की सेवा प्राप्त की है तथा सदस्यों से आग्रह है कि एमसीए सर्क्यलर्स के

अनुसार केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप से ही अपना मतदान करें। एमसीए सर्क्युलर्स के आलोक में जिन सदस्यों ने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं तथा जिसके कारण उन्हें पोस्टल बैलॅट सूचना प्राप्त नहीं हो सका है, वे पोस्टल बैलॅट सूचना के अंतर्गत दी गई पंजीकरण प्रक्रिया का अनुसरण कर अपना ईमेल पंजीकृत करा लें। सफल

ांजीकरण एवं ईमेल पते के अपडैटिंग के उपरांत सदस्यों को इस पोस्टल बैलॅट के लिये ई-वोटिंग में सक्षम होने के लिये यूजर आईडी एवं पास्वर्ड के साथ सूचना तथा ई-वोटिंग प्रक्रिया की सॉफ्ट कॉपी प्राप्त होगा। ई-वोटिंग अवधि 21 जनवरी, 2021 को 9.00 बजे पूर्वा. में शुरू होगी तथा 19 फरवरी, 2021

को 5.00 बजे अप. में बंद होगी। कट-ऑफ तिथि को भौतिक पद्धति या डिमैटेरियलाइज्ड पद्धत्ति में कम्पनी का शेयर धारित करने वाले सदस्य इस अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान कर सकते हैं। उसके बाद सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग पद्धत्ति निष्क्रिय कर दी जायेगी। स्वच्छ तथा पारदर्शी तरीके से पोस्टल बैलॅट प्रक्रिया के संचालन के लिये निदेशक मंडल ने श्री देवेश कमार वशिष्ट, कार्यरत कम्पनी सचिव तथा मै. संजय ग्रोवर एंड एसोसिएटस के पार्टनर, सीपी नं. 13700 को पर्यवेक्षक (''पर्यवेक्षक)'' नियुक्त किया है। स्क्रुटिनी की पूर्णता के बाद पर्यवेक्षक अपना रिपोर्ट जमा करेंगे तथा पोस्टल बैलॅट परिणामों को कम्पनी की वेबसाईट www.quintdigitalmedia.com पर प्रेषित कराने के अलावे 21 फरवरी, 2021 को या उससे पूर्व उन स्टॉक एक्सचैंजों को इसकी सूचना दी जायेगी जहां कम्पनी के इक्विटी शेयर्स सूचीबद्ध हैं।

जिस व्यक्ति का नाम 15 जनवरी, 2021 को सदस्यों के रजिस्टर/लाभभोगी स्वामियों की सूची में शामिल होगा, वोटिंग के लिये उनका विचार किया जायेगा। जो व्यक्ति 15 जनवरी, 2021 के सदस्य नहीं हैं वे केवल जानकारी के लिये ही इस सुचना को देखें।

यदि किसी व्यक्ति को पोस्टल बैलॅट सूचना तथा पोस्टल बैलॅट प्रपत्र प्राप्त नहीं हो वे tarun.belwal@thequint.com या subhashdhingreja@skylinerta.com पर मेल भेजें। पोस्टल बैलॅट सचना तथा पोस्टल बैलॅट प्रपत्र कम्पनी की वेबसाईट www.quintdigitalmedia.com से भी डाउनलोड की जा सकती है।

पोस्टल बैलॅट परिणाम की घोषणा 21 फरवरी, 2021 को या पूर्व अध्यक्ष द्वारा की जायेगी तथा उसकी सूचना उन स्टॉक एक्सचैंजों को दी जायेगी जिस पर कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं। साथ हीं, इन परिणामों को कम्पनी की वेबसाईट www.quintdigitalmedia.com पर भी प्रेषित किया जायेगा।

ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्नों/ जिज्ञासाओं के लिये सदस्यगण सहायता खंड के अंतर्गत

www.evotingindia.com पर उपलब्ध Frequently Asked Questions ("FAQ''S) तथा ई-वोटिंग मैन्युअल देखें अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई मेल करें। या श्री सुभाष धींग्रेजा, स्काईलाइन फाइनांसियल सर्विसेस प्रा.लि., ए-505, दत्तानी प्लाजा, अंधेरी कुर्ला रोड, सफीद पूल, अंधेरी-ईस्ट, मुम्बई, महाराष्ट्र- 400072 से उनके ईमेल पते : subhashdhingreja@skylinerta.com पर सम्पर्क करें या 02228511022/ 49721245 पर सम्पर्क करें।

क्विन्ट डिजीटल मीडिया लिमिटेड के लिये तरुण बेलवाल

कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

स्थानः दिल्ली

केन्द्रीय भण्डारण निगम 🔤 🕦 💈 3 (भारत सरकार का उपक्रम)

Regional Office, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

पत्रांक: के.म.नि./क्षे.का.-लख./ई.ई./20-21/ कार्यालय उपयोग हेतु रिक्त स्थान किराये पर देने के सम्बंध में सुचना (छठवां आमंत्रण) केन्द्रीय भण्डारण निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, विभृति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ अपने क्षेत्रीय कार्यालय भवन में भृतल एवं प्रथम तल जिसका कारपेट एरिया 4369 वर्ग फुट है, ''जैसा है जहाँ है' के आधार पर केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों/निगमों एवं सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, सहकारी समितियों आदि को किराये पर देने का उच्छक है। डच्छक विभाग के प्रतिनिधि दिनांक 21.01.2021 से 10.02.2021 तक किसी भी कार्य दिवस में प्रात: 10:00 बजे से अपरान्ह 04:30 बजे तक की अवधि में उपरोक्त स्थान का निरीक्षण कर सकते है। किराये पर लिये जाने सम्बंधी जानकारी/प्रपन्न निगम की वेबसाइट www.cewacor.nic.in पर देखी व डाउनलोड की जा सकती है अथवा क्षेत्रीय कार्यालय से नि:शुल्क प्राप्त की जा सकती है। पूर्ण रूप से भरे हुए प्रपन्न क्षेत्रीय कार्यालय, विभित्त खण्ड, निकट रोडवेज वर्कशाप, गोमती नगर, लखनऊ—226010 के कार्यालय में दिनांक 11.02.2021 को अपरान्ह 3:00 बजे तक प्राप्त हो जाना क्षेत्रीय प्रबंधक

गुडलक इंडिया लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः 509, अरूणाचल बिल्डिंग, बाराखम्भा रोड,

कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 वेबसाईटः goodluckindia.com, ईमेलः goodluck@goodluckindia.com CIN: L74899DL1986PLC050910

कंपनी के अधिनियम, 2013 के सेक्शन 46 और अन्य प्रावधानों के तहत, यहाँ सभी संबंधित लोगों को सचित किया जाता है कि निम्नलिखित शेयर प्रमाणपत्र खो गयें है और डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अनुरोध किया गया है, विवरण इस प्रकार हैं:

शेयर प्रमाण पत्र के खोने की सचना

क्र. सं. फोलियो नं.। शेयरधारकों के नाम ा प्रमाण पत्र नं। विशिष्ट नं। शेयरों की संख्या कृपया ध्यान दें कि इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के अन्दर यदि कंपनी द्वारा को:

बोर्ड के आदेशान्सार कृते गुडलक इंडिया लिमिटेड हस्ता. /-स्थानः गाजियाबाद (अभिषेक अग्रवाल) तिथिः 20.01.2021 कम्पनी सचिव

आपत्ति प्राप्त नहीं की जाती है, तो डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी कर दिये जाएंगे

अमत कॉर्प लि. CIN:L15141UP1940PLC000946

पंजी. कार्यालयः सीएम/28, प्रथम तल, गगन एन्क्लेव, अमृत नगर जी.टी. रोड. गाजियाबाद-201009 (उ.प्र.) कॉर्पो. कार्यालयः अमृत कार्पोरेट सेन्टर, ए-95, सेक्टर-65, नोएडा-201309 (उ.प्र.) फोन: 0120-4506900, फैक्स: 0120-4506910 ई-मेलः info@amritcorp.com, वेबसाईटः www.amritcorp.com

भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 "सूचीयन विनियमन'' के विनियमन 29, 33,47 तथा लागू होने वाले किसी अन्य विनियमन यदि कोई हो के अनुपालन में एतदृद्वारा सचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल तथा ऑडिट कमिटी की बैठक गुरुवार, 11 फरवरी, 2021 को विडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 31 दिसम्बर, 20 को समाप्त तिमाही तथा नौ माह के लिये कम्पनी के अनंकेक्षित तिमाही वित्तीय परिणामों पर विचार, परीक्षण तथा अनुमोदन

उक्त सूचीयन विनियमन के विनियमन 47(2) के अनुसार यह सूचना कम्पनी की वेबसाईट अर्थात् www.amritcorp.com के साथ ही बीएसई लिमिटेड की वेबसाईट पर भी उपलब्ध है। अमृत कार्प लि. के लिये

हस्ता./ तिथि: 19.01.2021 (पी.के. दास)

क्विन्ट डिजीटल मीडिया लिमिटेड

स्थानः गाजियाबाद

कम्पनी सचिव

(पूर्व में गौरव मर्केंटाइल्स लिमिटेड विदित) CIN: L74110DL1985PLC373314 पंजी. कार्यालय:: 403. प्रभात किरण. 17. राजेन्द्रा प्लेस. दिल्ली-110008. टेली.नं.: 011-45142374

कॉर्पोरेट कार्यालय: कारनउस्टिज बिल्डिंग, प्लॉट नं. 1, 9वां तल, सेक्टर 16 ए, फिल्म सिटी, नोएडा- 201301 टेली.नं.: 0120-4751818, वेबसाईट: www.quintdigitalmedia.com /

31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही तथा नोमाही के लिए

ई-मेलः cs@gmlmumbai.com

अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सार (रु. 000 में समाप्त तिमाही तिमाही 3 नौमाही 31 31 दिसम्बर, 2019 दिसम्बर, दिसम्बर, 2020 62271.4 145715.56 49,934.08 अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट 11988.77 (16,416.15) (63877.86) एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व) 3. कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) 11988.77 (22152.15 (63877.86) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद) 4. कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) 9071.03 (23065.43 (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों के बाद) अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर 9043.73 (23323.37 (61414.96) के बाद) लाभ/(हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल) 109754.04 109754.04 आरक्षित (पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र दर्शाई गई पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित) * 8. आय प्रति शेय 1) मुलः (4.47)

नोट: (क) उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल की गई 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही एवं नौमाही वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप का सार है। ख) तिमाही एवं नौमाही वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप बीएसई लिमिटेड की वेबसाईट

(www.bseindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाईट (www.quintdigitalmedia.com) पर उपलब्ध है। ग) उपरोक्त परिणामों की ऑडिट कमिटी द्वारा विधिवत समीक्षा की गई तथा 20 जनवरी,

2021 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये गये। ' 31 मार्च 2020 को निदेशक मंडल के लिये तथा उसकी ओर से

पर्षोत्तम दास अगरवाल तिथि: 20 जनवरी 2021 अध्यक्ष DIN: 00063017

राजस्थान में 153 और पक्षियों की मौत, बर्ड फ्लू से 17 जिले प्रभावित

जयपुर, 20 जनवरी (भाषा)।

राजस्थान में बुधवार को 153 और पक्षियों की मौत हो जाने से बर्ड फ्लू के कारण प्रदेश में अब तक कुल 5912 पक्षियों की मौत हो चुकी है। वहीं राज्य के 17 जिले बर्ड फ्ल संक्रमण से प्रभावित हैं।

पशुपालान *बर्ड फ्लू* से के विभाग अनुसार 27 जिलों किसी भी जिले के 267 नमूनों में में प्रवासी पक्षी से 67 नमूनों की की मौत नहीं जांच में संक्रमण पाया गया है। विभाग की

रिपोर्ट के अनसार बधवार को 93 कौवे, 8 कब्तर, 21 मोर व 31 अन्य पक्षियों की मौत हो गई। राज्य में 25 दिसंबर से अब तक 5,912 पक्षियों की मौत हो चुकी है। इनमें 4172 कौवे, 323 मोर, 464 कबुतर व 953 अन्य पक्षी शामिल हैं।

विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बर्ड फ्लू से किसी भी जिले में प्रवासी पक्षी की मौत नहीं हुई है, वहीं राज्य में अब तक 59 पोल्ट्री पक्षियों की मौत में जैसलमेर में पांच, कोटा में 17, बंदी में 33 और जयपुर में चार पोल्ट्री पक्षियों की मौत हो चुकी है।

सुब्रोस लिमिटेड वंजीकृत कार्यालय: एलजीएफ, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर,

बाराखण्या लेन, नई दिल्ली-110 001. 011-23414946-49: फेक्स नं.: 011-23414945 शीआईएन: L74899DL1985PLC020134 ई-मेल: rakesh.arora@subros.com: वेबसाईट: www.subros.com एतदद्वारा सेबी (सचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन

आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 29 और अन्य लाग् विनियम के अनुसरण में सुचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक शुक्रवार, 29 जनवरी, 2021 को आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य बातों के साध-साथ 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त तिमाडी के अलेखापरीक्षित विचीय परिणामों पर विचार एवं अनुमोदन किया जाएगा। कथित बैठक का विवरण कम्पनी की वेबसाइट

www.subros.com और स्टॉक एक्सचेंज(जॉ) की वेबसाइट www.nseindia.com एवं www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है। सबोस लिमिटेड के लिए हस्ता./-राकेश अरोडा

20.01.2021 प्रपत्र सं. आईएनसी-25ए समझ : क्षेत्रीय निदेशक कार्पोरेट मंत्रालय जलारी क्षेत्र कम्पनी अधिनिवम, 2013, कम्पनी अधिनिवम, 2013 की धारा 14 तथा कम्पनी (निगमन) निवमावली, 2014 के निवम 41 के विषय में मैसर्स नोरीसिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड के विषय में जिसक

पंजीकृत कार्यालय ए-६२, मेफेयर गार्जन, नई दिल्ली-110016 में स्थित है (सीआईएन: U31101DL1987PLC026630 रतदद्वारा सर्व साधारण को सूचना दी जाती है कि कम्पनी इसके पब्लिक कम्पनी से प्राइवेट कम्पनी में परिवर्तित करने के संबंध 18-01-2021 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक कम्पनी को ऐसे परिवर्तन हेतु सक्षम बनाने के संबंध में पारित विशेष प्रस्ताव के निबन्धनों के अनुसार कम्पनी अधिनियम, 2013 आवेदन केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तृत करने की इच्छक है। कोई भी व्यक्ति जिसका हित कम्पनी के प्रस्तावित परिवर्तन / कम्पनी की हैसियत से प्रभावित होने की संभावना है अपने हित के स्वरूप तथा विरोध के आधार के उल्लेखकारी शपथपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियां संबंधित क्षेत्रीय सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 को इस सूधना व प्रकाशन की तिथि से चौदह दिन के शीतर सुपूर्व कर सकता है अथवा करवा सकता है अथवा पंजीकृत डाक से मेज सकता है जिसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को इसके नीये वर्णित पते पर

रिवत पंजीकत कार्यालय मंजी जानी चाहिए ए-62. मेफेयर गार्डन, नई दिल्ली-110016 कृते एवं हिते आवेदक प्रभू दयाल अग्रवाल तिथि : 21-01-2021 प्रबंध निदेशक पंजीकृत कार्यालय पता : ए-62, मेफेयर गार्जन, नई दिल्ली-110016



2) तरलः

स्थानः नोएडा

गुलशन पोलीओल्स लिमिटेड

सीआईएनः L24231UP2000PLC034918

पंजीकृत कार्यालयः १वां कि. मी. जनसाथ रोड, मुजएफरनगर-251001 (उ.प्र.) कॉर्पोरेट कार्यालयः जी-81, प्रीत विहार, दिल्ली-110092, दूरभाषः 011-49999200, फैक्सः 011-49999202 वेबसाइटः www.gulshanindia.com, ईमेलः cs@gulshanindia.com

वित्तीय विशेषता तृतीय तिमाही वित्तीय वर्ष 2020-21

(4.47)

31 दिसम्बर 2020 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह हेतु अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.58				(र लाखों में)
528		समाप्त	तिमाही	समाप्त	नौ माह	समाप्त वर्ष
क्रम सं.	विवरण	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019 (अनअंकेक्षित)	31.03.2020
VI.		(अनअंकेक्षित)	(अनअं के क्षित)	(अनअंकेक्षित)		(अंकेक्षित)
1.	प्रचालनों से कुल आय (नोट 2 देखें)	20,912.89	14,045.85	53,868.90	48,577.54	62,079.77
2.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, विशिष्ट एवं / अथवा असाधारण मद से पूर्व)	2,741.04	615.19	5,963.78	2,406.07	2,742.22
3.	कर पूर्व अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि) (विशिष्ट एवं / अथवा असाधारण मद के पश्चात)	2,741.04	615.19	5,963.78	2,406.07	2,742.22
4.	कर पश्चात् अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि) (विशिष्ट एवं / अथवा असाचारण मद के पश्चात्)	1,860.48	477.64	4,091.19	1,780.21	2,058.40
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु (कर पश्चात्) लाभ / (हानि) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात्) शामिल]	1,860.48	477.64	4,091.19	1,780.21	2,058.40
6.	प्रदत्त समता अंश पूँजी (अंकित मूल्य रुपये 1/- प्रत्येक)	469.17	469.17	469.17	469.17	469.17
7.	संचित, पुनर्मूल्यांकन संचित के अतिरिक्त					
8.	प्रति अंश आय, जारी एवं बंद प्रचालनों हेतु (विशिष्ट मदों से पूर्व एवं पश्चात्) (अंकित मूल्य- रुपये 1/- प्रत्येक) मूलभूत तरल	3.97 3.97	1.02	8.72 8.72	3.79 3.79	4.39 4.39

1. 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह हेतू उपरोक्त अनअंकेक्षित वित्तीय परिणाम अंकेक्षण समिति द्वारा समीक्षित और अनुशंसित किए गए तथा 20 जनवरी, 2021 को आयोजित उनकी संबंधित बैठकों में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए गए। ये परिणाम सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के अन्तर्गत वैधानिक अंकेक्षकों के सीमित समीक्षा के विषय—स्वरुप थे एवं उन्होंने उपरोक्त परिणामों पर एक असम्बद्ध राय व्यक्त की है।

पठित कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (यथा संशोधित) एवं अन्य मान्यता प्राप्त लेखा प्रथाओं और नीतियों को लागू सीमा के अन्तर्गत तैयार किया गया है।

उपरोक्त वित्तीय परिणाम एवं विवरण भारतीय लेखा मानकों ("इंड-एएस") के अनुसार कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के साथ

पिछली अवधि के आंकड़ों को वर्तमान आंकड़े के समतुल्य बनाने हेतु जहां भी आवश्यक हो, पुनः व्यवस्थित / पुनर्वयवस्थित किया

यह जानकारी कम्पनी की वेबसाइट www.gulshanindia.com पर तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.nseindia.com एवं www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

> मंडल की ओर से कृते गुलशन पोलीओल्स लिमिटेड

(डॉ. चन्द्र कुमार जैन) दिनांकः 20 जनवरी 2021 अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

DIP/ Shabdarth/0566/20-21

सी और सीपी सी एस सर्वर सहित संचालन करना

www.readwhere.com